

# बच्चों का मील पैटर्न

आवश्यक न्यूनतम मात्राएं

भोजन के संघटक	भोजन के आइटम्स	उम्र 1-2	उम्र 3-5	उम्र 6-18
<b>सुबह का नाश्ता</b>	<b>दूध<sup>1</sup></b> वसा-मुक्त या कम वसा वाला (1%) दूध	1/2 कप	3/4 कप	1 कप
<b>सभी 3 संघटक परोसे जाने चाहिए</b>	<b>सब्ज़ियाँ/फल<sup>2</sup></b> सब्ज़ी, फल या दोनों या 100% जूस	1/4 कप	1/2 कप	1/2 कप
	<b>अनाज/ब्रेड<sup>3,4,5</sup></b> ब्रेड, ब्रेड उत्पाद, पास्ता, सीरियल, आदि	1/2 औंस समकक्ष	1/2 औंस समकक्ष	1 औंस समकक्ष
<b>नाश्ता</b>	<b>दूध</b> वसा-मुक्त या कम वसा वाला (1%) दूध	1/2 कप	1/2 कप	1 कप
<b>सूचीबद्ध 5 में से 2 अलग-अलग संघटक चुनें</b>	<b>सब्ज़ियाँ</b> सब्ज़ी या 100% जूस	1/2 कप	1/2 कप	3/4 कप
	<b>फल</b> फल या 100% जूस	1/2 कप	1/2 कप	3/4 कप
	<b>अनाज/ब्रेड</b> ब्रेड, ब्रेड उत्पाद, पास्ता, सीरियल, आदि	1/2 औंस समकक्ष	1/2 औंस समकक्ष	1 औंस समकक्ष
	<b>मांस/मांस का विकल्प (नीचे दी गई सूची देखें)</b> पतला मांस, मुर्गी या मछली या पीनट बटर, सॉय नट बटर, अन्य नट या बीज का बटर या मँगफली, नट्स या बीज या दही	1/2 औंस 1 बड़ा चम्मच 1/2 औंस 2 औंस	1/2 औंस 1 बड़ा चम्मच 1/2 औंस 2 औंस	1 औंस 2 बड़ा चम्मच 1 औंस 4 औंस
<b>दोपहर या रात का खाना</b>	<b>दूध</b> वसा-मुक्त या कम वसा वाला (1%) दूध	1/2 कप	3/4 कप	1 कप
<b>सभी 5 संघटक परोसे जाने चाहिए</b>	<b>सब्ज़ियाँ</b> सब्ज़ी या 100% जूस	1/8 कप	1/4 कप	1/2 कप
	<b>फल<sup>6</sup></b> फल या 100% जूस	1/8 कप	1/4 कप	1/4 कप
	<b>अनाज/ब्रेड</b> ब्रेड, ब्रेड उत्पाद, पास्ता, सीरियल, आदि	1/2 औंस समकक्ष	1/2 औंस समकक्ष	1 औंस समकक्ष
	<b>मांस/मांस का विकल्प</b> पतला मांस, मुर्गी या मछली या टोफू या चीज़ या दही या कॉटेज चीज़ या पकाए हुए सूखे बीन्स, मटर या दालें या अंडा पीनट बटर, सॉय नट बटर, अन्य नट या बीज का बटर या मँगफली, नट्स या बीज	1 औंस 1/4 कप 1 औंस 4 औंस 2 औंस 1/4 कप 1/2 2 बड़े चम्मच 1/2 औंस=50%	1 1/2 औंस 3/8 कप 1 1/2 औंस 6 औंस 3 औंस 3/8 कप 3/4 3 बड़े चम्मच 3/4 औंस=50%	2 औंस 1/2 कप 2 औंस 8 औंस 4 औंस 1/2 कप 1 4 बड़े चम्मच 1 औंस=50%

<sup>1</sup> 2 साल तक की आयु के बच्चों के लिए पूरा दूध आवश्यक है। 6 साल से कम आयु के बच्चों के लिए बिना फ्लोवर वाला दूध आवश्यक है।

<sup>2</sup> दिन में अधिकतम एक बार 100% जूस परोसा जा सकता है।

<sup>3</sup> हपते में 3 बार तक सुबह के नाश्ते में पूरे अनाज संघटक के बदले मांस/मांस का विकल्प परोसा जा सकता है। मांस/मांस का विकल्प परोसते वक्त नाश्ते के लिए बताई गई मात्रा का इसेमाल करें।

<sup>4</sup> हर रोज़ा साबुत अनाज से भरपूर अनाज/ब्रेड कम से कम एक बार परोसा जाना चाहिए और मैनू में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।

<sup>5</sup> क्रेडिट के लायक अनाज की मात्रा निर्धारित करने के लिए औंस समकक्ष (oz. eq.) इसेमाल किए जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए, बच्चों और वयस्कों की देखभाल खाद्य प्रोग्राम (Child and Adult Care Food Program, CACFP) में खाद्य पदार्थों को शामिल करना (Crediting Foods) देखें।

<sup>6</sup> दोपहर या रात के खाने में, एक सब्ज़ी और एक फल या दो अलग-अलग सब्ज़ियाँ परोसी जा सकती हैं।